



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 374]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 27, 1983/भाद्र 5, 1905

No. 374]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 27, 1983/BHADRA 5, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह जलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1983

का. आ. 623 (अ)/18-ए/आई. डी. आर. ए./83 :—
भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 727(अ)/18-क/उ. वि. वि. अ./72, तारीख 29 नवम्बर, 1972 द्वारा (जिसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) मैसर्स कन्टेनर्स एण्ड क्लोजर्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध 28 नवम्बर, 1977 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और इण्डस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता को "प्राधिकृत नियंत्रक" के रूप में नियुक्त किया गया था ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 787(अ)/18-क/उ. वि. वि. अ./77, तारीख 28 नवम्बर, 1977 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 28 नवम्बर, 1979 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, दो वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 757(अ)/18क/उ. वि. वि. अ./79, तारीख 28 नवम्बर, 1979 द्वारा उक्त आदेश की अवधि, 28 नवम्बर, 1980 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 926(अ)/18क/उ. वि. वि. अ./80, तारीख 28 नवम्बर, 1980 द्वारा उक्त आदेश की अवधि, 28 मई, 1981 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाई गई थी .

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 391(अ)/18क/उ. वि. वि. अ./81, तारीख 28 मई, 1981 द्वारा उक्त आदेश की अवधि, 28 नवम्बर, 1981 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की और अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी ,

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 832(अ)/18क/उ. वि. वि. अ./81, तारीख 28 नवम्बर, 1981 द्वारा उक्त आदेश की अवधि, 28 नवम्बर, 1982 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का.आ. 834(अ)/18क/उ.वि.वि.अ./82, तारीख 28 नवम्बर, 1982 द्वारा उक्त आदेश की अवधि, 28 मई, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की और अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी ;

और यतः भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का.आ. 381(अ)/18-ए/आई.डी.आर.ए./83, तारीख 28 मई, 1983 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 28 अगस्त, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह माह की और अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी ;

और यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश दो मास की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और दिनियसन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उप-धारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 28 अक्टूबर, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, दो मास की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[फाइल सं. 2(9)/80-सी. यू. एस.]

ए. पी. सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 27th August, 1983

S.O. 623(E)|18-A|IDRA|83.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 727(E)|18A|IDRA|72 dated the 29th November, 1972 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the Industrial Undertaking known as Messrs Containers and Closures Limited, Calcutta, had been taken over for a period upto and inclusive of the 28th November, 1977, and the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, Calcutta was appointed as "Authorised Controller";

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 787(E)|18A|IDRA|77, dated the 28th November, 1977, the duration of the said Order was extended for a further period of two years upto and inclusive of the 28th November, 1979;

And, whereas, by the Order of the Government of India, in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 757(E)|18A|IDRA|79, dated the 26th November,

1979, the duration of the said Order was extended for a further period of one year upto and inclusive of the 28th November, 1980;

And, whereas, by the Order of the Government of India, in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 926(E)|18A|IDRA|80, dated the 28th November, 1980, the duration of the said Order was extended for a further period of six months upto and inclusive of the 28th May, 1981;

And, whereas, by the Order of the Government of India, in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 39(E)|18A|IDRA|81, dated the 28th May, 1981, the duration of the said Order was extended for a further period of six months upto and inclusive of the 28th November, 1981;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 832(E)|18A|IDRA|81 dated the 28th November, 1981, the duration of the said Order was extended for a further period of one year upto and inclusive of the 28th November, 1982;

And, whereas, by the Order of the Government of India, in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 834(E)|18A|IDRA|82, dated the 26th November, 1982, the duration of the said Order was extended for a further period of six months upto and inclusive of the 28th May, 1983;

And, whereas, by the Order of the Government of India, in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 381(E)|18A|IDRA|83, dated the 28th May, 1983, the duration of the said Order was extended for a further period of three months upto and inclusive of the 28th August, 1983;

And whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period of two months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of two months upto and inclusive of the 28th October, 1983.

[File No. 2(9)|80-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.